

Date: 07.11.2023

To. **BSE** Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400001

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai - 400051

Scrip Code: 541206

Trading Symbol: OBCL

Sub: Submission of Copies of Newspaper Advertisement regarding Publication of Financial Results

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30, Regulation 47 and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing herewith the copies of extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2023 as published in the Newspaper on Tuesday, November 07, 2023 regarding the Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2023 as approved by the Board of Directors in their meeting held on Monday, November 06, 2023.

The advertisement was published in following newspapers:

- Business Standard, English daily. 1.
- 2. Business Standard, Hindi language daily.

This is in due compliance of the relevant Regulations of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

You are requested to please take the note of same in your record.

Thanking you,

Yours Faithfully, Orissa Bengal Carrier Ltd.

Muskaan Gupta Company Secretary & Compliance Officer





ASI INDUSTRIES LIMITED

CIN: L14101MH1945PLC256122

Regd. Office: Marethon Innova, A- Wing, 7th Floor, Off: Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai- 400013, Tel: 022-40896100, Fax: 022-40896199

Website: www.asigroup.co.in, Email: investors@asigroup.co.in EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30™ SEPTEMBER, 2023

					(Rs in Lakhs)
		Quarter Ended	Half Year Ended	Quarter Ended	Year Ended
Sr. No.	Particulars	30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2022 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total income from operations (net)	1788.95	5344.18	1518.36	13760.55
2	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional items)	(158.22)	392.10	(370.94)	2475.63
3	Net Profit/(Loss) from ordinary activities after tax	(164.26)	258.84	(351.41)	1727.51
4	Total Comprehensive income for the period [Comprising profit of the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(178.72)	215.37	(347.67)	1693.17
5	Paid-up equity share capital of Re. 1/- each	900.75	900.75	900.75	900.75
6	Other Equity (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet				21249.63
7	Earnings Per Share of Re. 1/- each (not annualised)				
	(a) Basic	(0.18)	0.29	(0.39)	1.92
	(b) Diluted	(0.18)	0.29	(0.39)	1.92

Note -

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for quarter and half year ended September 30 2023 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly standalone Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchange website of BSE at www.bseindia.com and on Company's website at www.asigroup.co.in.

By order of the Board Deepak Jatia

Place : Mumbai Date : 6th November 2023 Chairman & Managing Director (DIN: 01068689)

Mahua Bharatpur Expressways Limited

Regd. Office: B-376, Upper Ground Floor, Nirman Vihar, New Delhi-110092 CIN - U45203DL 2005PLC329746

	Statement of Unaudited Financial Results For the Quarter/Six Months Ended September 30, 2023 (Amounts in Lacs)									
Si No.	Particulars	For the quarter ended September 30, 2023 Unaudited	For the quarter ended September 30, 2022 Unaudited	For the six months ended September 30, 2023 Unaudited	For the six months ended September 30, 2022 Unaudited	For the year ended March 31, 2023 Audited				
1	Total Income from Operations	2,771.11	2,438.49	5,386.28	4,675.83	10,238.26				
2	Net Profit / (Loss) for the period/year	390.21	585.17	1,026.84	998.80	2,230.29				
	(Before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)			·						
3	Net Profit / (Loss) for the period/year Before Tax	390.21	585.17	1,026.84	998.80	2,230.29				
	(after Exceptional and / or Extraordinary Items)									
4	Net Profit / (Loss) for the period/year after tax	406.78	576.78	1,043.42	995.30	2,242.24				
	(after Exceptional and / or Extraordinary Items)									
5	Total Comprehensive Income for the period/year	408.76	579.02	1,039.00	996.12	2,253.28				
	(Comprising profit / (Loss) for the period/year (after tax)									
	and other Comprehensive Income (after tax)									
6	Paid-up equity share capital (Face value of Rs. 10 each)	9,936.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00				
7	Other equity (Reserves excluding revaluation reserves)	(10,754.18)	(13,053.08)	(10,754.18)	(13,053.08)	(11,793.19)				
8	Net worth	(818.18)	(3,117.08)	(818.18)	(3,117.08)	(1,857.19)				
9	Paid up debt capital / Outstanding debt	22,479.35	22,994.30	22,479.35	22,994.30	22,311.13				
10	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-	-				
11	Debt / Equity Ratio	(27.47)	(7.38)	(27.47)	(7.38)	(12.01)				
12	Earning per share (EPS) (Face value of Rs. 10/- each)									
	(for Continuing and discontinued operations)									
	1. Basic	0.41	0.58	1.05	1.00	2.26				
	2. Diluted	0.41	0.58	1.05	1.00	2.26				
13	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-	-				
14	Debenture redemption reserve (Refer note 2)	-	-	-	-	-				
15	Debt Service Coverage Ratio	1.19	1.16	1.69	1.52	1.66				
16	Interest Service Coverage Ratio	2.65	2.56	2.73	2.45	2.65				
Not	98:									

- The above unaudited financial results of the Company for the quarter and six months period ended September 30, 2023 have been reviewed and approved by the Board of Directors in their meeting held on November 06, 2023. The statutory auditors of the Company have carried out limits review of the unaudited financial results. In the absence of distributable profits, the Company has not created Debenture Redemption Reserve (DRR). However, the Company is regular
- redeeming dehentures matured during the period. Information as required by Regulation 52(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements
- Regulations, 2015 is as per separate Annexure attached, the pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed of https://www.bseindia.com.
- re is an extract of the detailed format of quarterly/six months financial results filled with the BSE Limited under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the half yearly financial results are available on the websites of the BSE Limited and on the company website: https://mbel.co.in/investor-relation/

For and on behalf of Board of Director Mahua Bharatour Expressways Limite Mridul Gupta Directo

DIN: 09781498

SECUREKLOUD TECHNOLOGIES LIMITED

Regd. Off: No 37 & 38, ASV Ramana Towers, 5th Floor, Venkat Narayana Road, T. Nagar, Chennai 600 017 | Ph: 044 66028000 | Email: cs@securekloud.com | website: www.securekloud.com CIN: L72300TN1993PLC101852

half year ended September 30, 2023
(Rs. in lakhs excep
A: 1.1

				Stand	alone		
SI.	Particulars Particulars		3 Months Ende	d	6 Month	s Ended	Year ended
No.		30-Sep-23	30-Jun-23	30-Sep-22	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income	1,373.71	1,567.47	1,505.75	2,941.18	3,042.10	6,107.
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	147.41	241.08	(1.38)	388.49	64.28	(272.3
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	147.41	241.08	(1.38)	388.49	64.28	(272.
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	118.47	199.21	(13.69)	317.68	26.39	(273.
5	Total Comprehensive income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income(after tax)	135.82	190.27	(2.31)	326.09	37.77	(267.
6	Equity Share Capital (face value of INR 5/- each)	1,670.53	1,670.53	1,670.53	1,670.53	1,670.53	1,670
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserves)						9,033
8	Earnings per share (Face value of INR 5/- each) not annualised				·		
	(i) Basic (INR) (ii) Diluted (INR)	0.35 0.35	0.60 0.60	(0.04) (0.04)	0.95 0.95	0.08 0.08	(0.

						(Rs. in lakh	s except EPS)			
		Consolidated								
SI.	Particulars Particulars		3 Months Ende	d	6 Month	s Ended	Year ended			
No.		30-Sep-23	30-Jun-23	30-Sep-22	30-Sep-23	30-Sep-22	31-Mar-23			
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited			
1	Total Income	9,419.98	9,929.61	12,061.14	19,349.59	23,188.24	46,050.40			
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,694.90)	(1,531.53)	(2,212.87)	(3,226.43)	(4,218.79)	(9,926.79)			
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,694.90)	(1,531.53)	(2,212.87)	(3,226.43)	(4,218.79)	(9,926.79)			
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(1,711.06)	(1,590.97)	(2,287.02)	(3,302.03)	(4,321.23)	(9,875.52)			
5	Total Comprehensive income for the period (comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income(after tax)	(1,708.17)	(1,590.97)	(2,275.64)	(3,299.14)	(4,309.85)	(9,875.64)			
6	Equity Share Capital (face value of INR 5/- each)	1,670.53	1,670.53	1,670.53	1,670.53	1,670.53	1,670.53			
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserves)						5,074.80			
8	Earnings per share (Face value of INR 5/- each) not annualised									
	(i) Basic (INR) (ii) Diluted (INR)	(1.80) (1.80)	(2.22) (2.22)	(4.65) (4.82)	(4.02) (4.02)	(8.80) (8.70)	(14.62) (14.54)			
lote:					, , ,		. ,			

The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on November 06, 2023. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) viz., www.nseindia.com and www.bseindia.com and the Company viz., www.securekloud.com

2. The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s)due to change(s) in accounting policies

shall be disclosed by means of a footnote. 3. Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever

Place: Chennai

Date: 06-11-2023

For SecureKloud Technologies Limited Thyagaraian R Whole-time Director and Chief Financial Office DIN: 00942326



INSTITUTE OF ROAD TRANSPORT

Govt. of Tamil Nadu Regd. Office:- 100 Feet Road, Taramani, Chennai 600113, Tamil Nadu, India irttaramani@gmail.com, irtcpo@gmail.com

E-Tender for Supply of RT Materials for STUs of Tamil Nadu. IRT Tender no: 02/RT/CP/IRT/2023 2

Institute of Road Transport (IRT), invites E-tender for the supply of RT Materials from the manufacturers fulfilling eligibility criteria as specified in the tender document under two bid system. The tender document for RT materials can be downloaded from 10.11.2023. The bid shall be submitted online at https://tntenders.gov.in only with supporting documentary evidence as provided in the instruction to bidder in the tender document before 3.00 pm, 12.12.2023. Pre-bid meeting shall be held on 17.11.2023 at 11.00 hrs, IRT, 100 Feet Road, Taramani, Chennai 600113, Tamil Nadu.

DIRECTOR DIPR/5893/Tender/2023



Infosys Limited

CIN: L85110KA1981PLC013115

44, Infosys Avenue, Electronics City, Hosur Road, Bengaluru - 560 100 Phone: 91 80 2852 0261, Fax: 91 80 2852 0362 investors@infosys.com, www.infosys.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following share certificate(s) issued by the Company are stated to have been lost or misplaced and the registered share holder(s) thereof have applied for issue of duplicate share certificate(s).

Notice is hereby given that the company will proceed to issue letter of confirmation in lieu of duplicate share certificate(s) unless a valid objection is received by the company within 15 days from the date of publication of this notice. No claims will be entertained by the company with respect to the original share certificate(s) subsequent to the issue of duplicates thereof.

Name of Shareholder	Folio No.	Certificate	Distinct	No. of	
Name of online folder	i olio ito.	No.	From	То	Shares
DINUMATI CHIMANLAL TRIVEDI(Deceased) (Claimant – KOKILA CHIMANLAL TRIVEDI)	IT! 400500	654159	583042040	583042064	25
	ITL100528		1149248346	1149248370	25

Any person who has/have a claim in respect of the said certificate(s) should lodge his/her/ their claim with all supporting documents with the company at its registered office. If no valid and legitimate claim is received within 15 days from the date of publication of this notice, the company will proceed to issue Letter of Confirmation in lieu of duplicate share certificate(s) to the person listed above and no further claim would be entertained from any other person(s).

Registered Office: Electronics City, Hosur Road,

Bengaluru - 560 100

November 6, 2023

Bengaluru, India

For Infosys Limited A.G.S. Manikantha

Company Secretary

Sd/-

ORISSA BENGAL CARRIER LTD.

CIN: L63090CT1994PLC008732 Registered Office: Jiwan Bima Marg, Pandri Ralpur (CG) 492001 Corporate Office: A-1, Third Floor, CG Elite Complex, Opposite Mandi Gate, Pandri, Ralpur (C.G.) 492001 Website: www.obclimited.com, email(s): cs@obclimited.com | Tel: +91-771 2281321 | 0771-4054518

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

		(Rs. in Lakhs, except EPS)						
S.	Particulars	STANDALONE						
No.		Quarter Ended			Half Yea	Year Ended		
		30.09.2023	30.06.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations	9086.39	7868.24	10320.27	16954.63	19431.66	36851.73	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional items and /or extraordinary items)	269.59	266.99	433.54	536.58	848.49	500.36	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional items and /or extraordinary items)	269.59	266.99	433.54	536.58	848.49	500.36	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items and /or extraordinary items)	194.69	206.56	324.31	401.25	637.30	366.92	
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	220.19	229.15	324.31	449.34	637.30	370.17	
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10 each)		2108.28					
7	Reserves(excluding Revaluation Reserve)	6463.09						
8 I)	Earning per share (Face value of Rs. 10 each) Basic (Rs.)	1.04	1.09	1.54	2.13	3.02	1.76	
II)	Diluted (Rs.)	1.04	1.09	1.54	2.13	3.02	1.76	

Note: The above is an extract of the detailed format of the Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The ful formats of the Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges viz. BSE a www.bseindia.com & NSE at www.nseindia.com & on the website of the Company at www.obclimited.com

Place: Ralpur

For, Orissa Bengal Carrier Ltd. Sd/- Ravi Agrawal Managing Director, DIN:01392652

mber 20 2022

ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED

Regd. Office: B-376, Upper Ground Floor, Nirman Vihar, New Delhi-110092 CIN - U63031DL2005PLC349200

	Statement of Chaudited Financial Results For the Guiarce/Six Michigan September 30, 2023 (Amounts in Lacs)									
		For the qu	ter ended	For the six m	onths ended	For the year ended				
SI No.	Particulars	September 30, 2023 Unaudited	September 30, 2022 Unaudited	September 30, 2023 Unaudited	September 30, 2022 Unaudited	March 31, 2023 Audited				
1	Total Income from Operations	1,099.52	1,212.03	2,160.38	2,292.90	4,898.82				
2	Net Profit / (Loss) for the period	(302.47)	(934.97)	(582.17)	(1,097.63)	(2,255.90)				
	(Before Tax, Exceptional and / or Extraordinary Items)	, ,	` ′	` ′	`` ′	` ′				
3	Net Profit / (Loss) for the period Before Tax	(302.47)	(934.97)	(582.17)	(1,097.63)	(2,255.90)				
	(after Exceptional and / or Extraordinary Items)		, ,							
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	(302.47)	(737.97)	(582.17)	(863.00)	(4,408.97)				
	(after Exceptional and / or Extraordinary Items)									
5	Total Comprehensive Income for the period	(297.26)	(736.51)	(581.04)	(861.89)	(4,405.55)				
	(Comprising profit / (Loss) for the period (after tax) and other									
	Comprehensive Income (after tax)									
6	Paid-up equity share capital (Face value of ₹ 10 each)	1,190.01	1,190.01	1,190.01	1,190.01	1,190.01				
7	Other equity (Reserves excluding revaluation reserves)	(7,193.48)	(3,074.35)	(7,193.48)	(3,074.35)	(6,612.43)				
8	Security Premium Account	-	-	-	-					
9	Net worth	(6,003.47)	(1,884.34)	(6,003.47)	(1,884.34)	(5,422.42)				
10	Paid up debt capital / Outstanding debt	26,152.37	19,427.00	26,152.37	19,427.00	20,189.86				
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-	-				
12	Debt / Equity Ratio	(4.36)	(12.16)	(4.36)	(12.16)	(3.72)				
13	Earnings per share (EPS) (Face value of ₹ 10/- each)									
	1. Basic	(2.54)	(6.20)	(4.89)	(7.25)	(37.05)				
	2. Diluted	(2.54)	(6.20)	(4.89)	(7.25)	(37.05)				
14	Capital Reserve	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00				
15	Debenture redemption reserve (Refer note 6)	4,904.32	4,904.32	4,904.32	4,904.32	4,904.32				
16	Debt Service Coverage Ratio	0.67	0.34	0.08	0.22	0.18				
17	Interest Service Coverage Ratio	0.67	0.34	0.69	0.54	0.46				

The above financial results for the period ended September 30, 2023 have been reviewed, and, approved by the Board of Directors in their meeting held on November 06, 2023.

The above is an extract of the detailed format of quarterly and six months financial results filed with the National Stock Exchange of India Limit (NSE) under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and six months financial results is available on the websites of National Stock Exchange of India Limited (NSE) on https://www.nseindia.com and on the Company website: http://www.apel.net.in/investor-relation/

For the items referred to sub clause of the Regulation 52(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclos Requirements) Regulations, 2015 the pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and can be For and on behalf of the Board of Directo Andhra Pradesh Expressway Limit



PDS Limited (Erstwhile PDS Multinational Fashions Limited) CIN: L18101MH2011PLC388088

Regd. Office: Unit No. 971, Solitaire Corporate Park, Andheri - Ghatkopar Link Road, Andheri (East), Mumbai - 400093, Maharashtra. India. E-mail: investors@pdsltd.com | Website: www.pdsltd.com | Tel: +91 2241441100

NOTICE

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with applicable rules and Regulations thereunder and applicable Regulations of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, November 15, 2023 has been fixed as the Record date for ascertaining the entitlement of Shareholders for payment of an Interim Dividend of ₹1.60/- per equity share of ₹2/- each (i.e. 80%) of the face value, declared by the Board of Directors on November 1, 2023.

The Interim Dividend will be paid to the Shareholders whose names appear in the Registe of Members as on the Record date, i.e., November 15, 2023.

Pursuant to the Finance Act, 2020, the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to Shareholders at the prescribed rates. Any eligible shareholder, who wishes to avail the benefit of non-deduction of tax at source is requested to submit the following documents on or before 5:00 pm (IST) Wednesday, November 15, 2023 at https://linkintime.co.in/formsreg/submission-of-form-15g-15h.htm

Resident Individual Shareholder with PAN Yearly declaration in Form 15G/15H

Members not having PAN / valid PAN No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration ii) Tax Residency Certificate iii) Form 10F

> iv) Any other document which may be required to avail the tax treaty benefit

The notice is also available on the website of the Company at www.pdsltd.com and the website of the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz., BSE Limited ww.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com)

> By Order of the Board of Directors (Erstwhile PDS Multinational Fashions Limited

Abhishekh Kano Head of Legal & Company Secretary Membership No.: F-9530

1ÖÖ



Date: November 6,2023

Place: Mumbal

CHENNAI-9 Dated: November 06, 2023

PRESS COMMUNIQUE

It is notified for general information that the outstanding balance of 9.38% Tamil Nadu SDL, 2023 issued in terms of the Government of Tamil Nadu, Finance Department, Notification No.259(L)/W&M-II/2013, dated November 29, 2013 will be repaid at par on December 04, 2023 with interest due up to and including December 03, 2023. In the event of a holiday being declared on the aforesaid date by any State Government under the Negotiable Instruments Act, 1881, the loan will be repaid by the paying offices in that State on the previous working day. No interest will accrue on the loan from and after December 04, 2023.

2. As per sub-regulation 24(2) and 24(3) of Government Securities Regulations, 2007 payment of maturity proceeds to the registered holder of Government Security held in the form of Subsidiary General Ledger or Constituent Subsidiary General Ledger account or Stock Certificate shall be made by a pay order incorporating the relevant particulars of his bank account or by credit to the account of the holder in any bank having facility of receipt of funds through electronic means. For the purpose of making payment in respect of the securities, the original subscriber or the subsequent holders of such a Government Securities, as the case may be, shall submit to the Bank or Treasury and Sub-Treasury or branch of State Bank of India, where they are enfaced / registered for payment of interest, as the case may be, the relevant particulars of their bank account.

3. However, in the absence of relevant particulars of bank account/mandate for receipt of funds through electronic means, to facilitate repayment on the due date, holders of 9.38% Tamil Nadu SDL 2023, should tender their securities at the Public Debt Office, 20 days in advance. The securities should be tendered for repayment, duly discharged on the reverse thereof as under:-

"Received the Principal due on the Certificate".

4. It should be particularly noted that at places where the treasury work is done by a branch of the State Bank of India, the securities, if they are in the form of Stock Certificates, should be tendered at the branch of the bank concerned and not at the Treasury or Sub-Treasury.

5. Holders who wish to receive payment at places other than those where the securities have been enfaced for payment should send them duly discharged to the Public Debt Office concerned by Registered and Insured Post. The Public Debt Office will make payment by issuing a draft payable at any Treasury/Sub-Treasury or branch of State Bank of India conducting Government Treasury work in the State of Tamil Nadu.

Principal Secretary to Government, DIPR/ 1283 /DISPLAY/2023 Finance Department, Chennal-9.

OFFICE OF LIQUIDATOR KANISHK GOLD PRIVATE LIMITED (In Liquidation)

At No.397, Precision Plaza, 3rd Floor, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600 018 E-mail: ebladvocate@gmail.com / Mob: 95000 05659 **E-AUCTION SALE NOTICE** PUBLIC NOTICE FOR E-AUCTION FOR SALE of immovable properties of

Kanishk Gold Private Limited (In Liquidation) by the LIQUIDATOR appointed by the National Company Law Tribunal (NCLT), Chennai in Common Order in IA 401 of 2021 and IA 451 of 2021 in IBA/920/2019 on 17th December 2021 under The Insolvency and Bankruptcy Code 2016 and The In Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016.

SALE NOTICE

Pursuant to the orders of the NCLT, Chennai, dated 17th December 2021, in Common order in IA 401 of 2021 & IA 451 of 2021 in IBA/920/2019 appointing the undersigned as Liquidator, BIDS are invited from the interested parties by the undersigned as Liquidator, BIDS are invited from the interested parties by the undersigned for the purchase of Land and Building, description of which are given are given in the schedule as LOT I & II, belonging to Ws. Kanishk Gold Private Limited, having it's registered office at Door No.39, North Usman Road, 7th Floor, Prashant Real Gold Tower, T.Nagar, Chennai – 600017 on "AS IS WHERE IS AND WHATEVER THERE IS AND NO COMPLAINT BASIS" under The Insolvency and sankruptcy Code 2016 and The Insolvency and Bankruptcy Board of India tion Process) Regulations, 2016.

Date of inspection of the Land by prospective bidders 24.11.2023 & 25.11.2023 between 11.00 a.m and 3.00 p.m

Last date & time for submission of online application for bid with EMD 30.11.2023 on or before 5.00 p.m

DATE & TIME OF E-AUCTION: 01.12.2023 From 11.00 am to 12.00 noon The end time of auction will be extended by 5 minutes each time a bid is made within last 5 minutes of e-auction

DESCRIPTION OF PROPERTIES

Lot I: All that piece and parcel of vacant land admeasuring 83.20 cents being field No.1, from and out of 4 Acres and 70 cents comprised in Survey No.95/1C1A (Part). As per Patta No.1105, Survey No.95/52 situated in Muttukadu Village, Thiruporur Taluk, Kancheepuram District. Bounded on the North by: S.No.95/1A1C/2B & 95/1A2A, South by: Common Passage in S.No.95/1C1A(Part), East by: East Coast Road, West by: S.No.95/1C1A(Part) field No.11. Lying within the Sub-Registration District of Thiruporur and Registration District of Chengalpattu. (Belonging to M/s.Kanishk Gold Private Limited under Document No.14175/2013 dated 10.10.2013).

Reserve Price: ₹ 8,47,35,000/-; Earnest Money Deposit (EMD): ₹ 84,73,500/-Lot II: All the piece and parcel of land with super structure building situated at Pannikulam Village Karimangalam Taluk, Dharmapuri District measuring as per document 6.70 Acres) comprised in Survey No.94/1A(7.09 Acres (2.87.0 Hectare) as per Patta No.9). Bounded on the North by Mr. Veluchamy Land, South by :Arur Main road and remaining land, of Mr.Balasubramaniam, East by Remaining land of Mr. Balasubramanian and Odai (Canal) West by: Mr.Palaniappa Land. Lying within the Registration District of Dharmapuri and Sub-Registration District of Barur, (belonging to M/s. Kanishk Gold Pvt. Ltd. under Doc No.15/2017)

Reserve Price: ₹ 4,18,75,000/-; Earnest Money Deposit (EMD): ₹ 41,87,500/-

Bid increment Amount (LOT - I and LOT - II): ₹ 2,00,000/- or in multiples thereof Note: The intending bidders have to submit the bid individually for each lot

for which separate E auction ID will be provided by the service provide EMD Remittance: Earnest money of 10% of the reserve price should be emitted through NEFT/RTGS/IMPS, Transfer in favour of Kanishk Gold Private Limited (In Liquidation) - Account No.40802463903 with State Bank of India, Overseas Branch, Chennal - 600 001, IFSC Code SBIN0004804. The ils should be clearly noted in the bid form. Cheque or Demand Draft shall not be accepted as EMD amount.

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in https://www.matexauctions.com of the service provider M/s.Matex.Net Pvt. Ltd. Fhenezar Inhara

IBBI/PA-001/IP-P00754/2017-2018/11286 Liquidator

Kanishk Gold Private Limited (in Liquidation

Place: Chennai Date: 06.11.2023

Place : Nolda Date : November 06, 2023

Mridul Gupta Director DIN: 09781498



CIN: L15141CT1987PLC003777 ग्रीकृत कार्यालय: केएन बिल्डिंग, पंचशील, रायपुर- 492001 मेल: info@knagri.com वेबसाइट: www.knagri.com फ़ोन: +91-771-2293706-08, 4016370

36 वीं वार्षिक सामान्य बैठक की नोटिस एवं ई - वोटिंग सूचना एतत् द्वारा नोटिस दिया जाता है कि दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय करने के लिए कंपनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) गुरुवार, 30 नवंबर, 2023 को दोपहर 02:00 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, केएन बिल्डिंग, पंचेशील, रायपुर-492001, छत्तीसगढ़ में आयोजित की जाएगी । केंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर)विनियम, 2015 के नियम 44 के साथ पढ़ी गई धारा 108 के अनुसार, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम से पहले इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सविधा प्रदान कर रही है।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि: 1. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के वेबलिंक के के साथ वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) बलाने का नोटिस सदस्यों को इलेक्टॉनिक मोड के माध्यम से **सोमवार. 06 नवंबर**. 2023 को भेजा गया है। यह कंपनी की वेबसाइट www.knagri.com पर भी उपलब्ध है। 2. सामान्य बैठक में रिमोट ई-वोटिंग सुविधा / वोटिंग का लाभ उठाने के लिए सदस्यों की पात्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **कट-ऑफ तिथि बुधवार, 06 नवंबर, 2023 है। कट-ऑफ तिथि** पर शेयर रखने वाले सदस्य एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए अधिकत होंगे।

3. रिमोट ई-वोटिंग अवधि **सोमवार, 27 नवंबर, 2023 को सुबह 09:00 बजे** शुरू होगी एवं **बुधवार, 29 नवंबर, 2023 को शाम 05:00 बजे** समाप्त होगी। उस के बाद एनएसंडीएल द्वारा रेमोट ई-वोटिंग को निर्योग्य कर दिया जायेगा । एक बार जब सदस्य द्वारा प्रस्तावना पर मत दिया जायेगा, तो उसके बाद कोई परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी । रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया के लिए विस्तृत प्रक्रिया / निर्देश नोटिस में निर्दिष्ट किया गया है। 4. कोई सदस्य रिमोट ई-बोटिंग के माध्यम से अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करने के बाद भी वार्षिक सामान्य बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन उसे बैठक में दोबारा मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 5. एक व्यक्ति जो शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी **बुधवार, 22 नवंबर, 2023** को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन-आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। या एनएसडीएल द्वारा दिए गए टोल फ्री नंबर: 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं । 6. एनएसडीएल हेल्पडेस्क: एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं वे अपना अनुरोध evoting@nsdl.co.in पर भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-1020-990/1800-224-430 पर कॉल कर सकते हैं। 7. सीडीएसएल हेल्पडेस्क: सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्य, लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं वे अपना अनुरोध evoting@cdslindia.com पर भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 022-23058738 / 022-2305842 पर संपर्क कर सकते हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम के नोटिस में दिए गए विस्तृत निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, जिसमें एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग/वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके का संकेत दिया केएन एग्री रिसोर्सेज लिमिटेड के लिए

एसडी/- धीरेन्द्र श्रीश्रीमाल पूर्ण- कालिक निदेशक एवं सीएफओ (DIN: 00324169) स्थानः रायपुर दिनांकः ०७.11.2023

ऊंची रहेगी भारत की वृद्धि दर

नई दिल्ली, 6 नवंबर

जगार दर में सुधार और कामकाजी उम्र वाली बेहतर आबादी के अनुमान के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 2019-27 की अवधि के दौरान मध्यम अवधि में 6.2 प्रतिशत वार्षिक औसत वद्धि दर दर्ज करने की क्षमता है। यह वृद्धि वर्ष 2013-2022 के लिए अनुमानित 5.7 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से 0.7 प्रतिशत अधिक है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, फिच रेटिंग्स ने सोमवार को एक वैश्विक आर्थिक परिदृश्य से जुड़ी रिपोर्ट जारी की जिसमें यह बात सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है. 'भारत में रोजगार दर में सुधार और कामकाजी उम्र की आबादी के पूर्वानुमान में वृद्धि को देखते हुए संभावित वृद्धि 0.7 फीसदी अंक बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई है। भारत का श्रम उत्पादकता पूर्वानुमान भी अधिक है।' हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था की बढी हुई क्षमता से जुड़ी रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने 10 उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए मध्यम अवधि की वृद्धि दर अनुमान को





4.3 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया है जिसकी मख्य वजह चीन के वृद्धि अनुमान में कटौती है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'हमने चीन शामिल हैं। की आपूर्ति के वृद्धि दर अनुमान को

5.3 प्रतिशत से घटाकर 4.6 प्रतिशत कर दिया है। हाल के वर्षों में चीन की वृद्धि की रफ्तार तेजी से धीमी हुई है और पुंजीगत मोर्चे पर भी तस्वीर बेहतर नहीं है क्योंकि संपत्ति में गिरावट का असर निवेश से जुड़ी धारणाओं पर भी पड़ रहा है। श्रम आपूर्ति के मोर्चे पर भी कमजोरी दिखें रही है जो आबादी की श्रम बल भागीदारी दर में आ रही कमी को दर्शाता है।'दनिया की 10 उभरती अर्थव्यवस्थाओं

ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, कोरिया, मैक्सिको, पोलैंड, रूस, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की जैसे देश

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महामारी से पहले के अनुमानों की तलना में ब्राजील और पोलैंड को छोडकर सभी 10 उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के वृद्धि अनुमानों में निचले स्तर के संशोधन हुए हैं। इसकी वजह यह है कि जनसांख्यिकीय रुझानों में स्पष्ट रुप से यह दिख रह है कि कामकाजी उम्र वाली आबादी में वृद्धि की दर, वक्त के साथ धीमी हो रही है और महामारी के कारण बड़ी आर्थिक बाधाओं के चलते आपूर्ति पर

नकारात्मक प्रभाव पड रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'वर्ष 2020 में कोविड महामारी के कारण कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी और मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बड़ी गिरावट देखी गई थी। वहीं दूसरी ओर कोरिया में केवल मामुली कमी के साथ ही तर्की और चीन जैसे देशों में सकारात्मक वृद्धि का रुझान देखा गया। बाद में ज्यादातर अर्थव्यवस्थाओं में मजबत आर्थिक सुधार देखे गए क्योंकि सरकारों ने राजकोषीय खर्च बढ़ा

दिया और इसके साथ ही वैश्विक

व्यापार में सुधार देखा जाने लगा। आर्थिक गतिविधियों के फिर से शरू होने के बाद निजी खपत में भी उछाल देखी गई।'रिपोर्ट में इसका भी जिक्र था कि अधिकांश उभरती अर्थव्यवस्थाओं को ऐसा लग रहा है कि बेहतर रिकवरी के बावजूद, महामारी से पहले की उम्मीदों के मुकाबले उत्पादन में स्थायी तौर पर नकसान झेलना पडेगा।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में संभावित वृद्धि के लिए कम पूर्वानुमान, श्रम आपूर्ति घटक के कारण हैं जो आंशिक रूप से कामकाजी आबादी में कमी को दर्शाता है। भारत उन देशों में शामिल है, जहां वर्ष 2019 की तुलना में श्रम इनपुट में सबसे अधिक कमी

आई है। रिपोर्ट में कहा गया है, 'श्रम भागीदारी दर में अपेक्षाकृत रूप से नकारात्मक वृद्धि को देखते हुए भारत की अनुमानित श्रम आपूर्ति वद्धि भी 2019 के बरक्स कम है। हालांकि भागीदारी दर महामारी के दौर वाली मंदी से उबरती हुई दिख रही है लेकिन यह 2000 के दशक की शुरुआत के स्तर से काफी नीचे बनी हुई है जिसकी एक वजह यह भी है कि महिलाओं के बीच रोजगार दर बेहद कम है।'

मुफ्त अनाज देने का राजकोष पर नहीं होगा असर

रुचिका चित्रवंशी नई दिल्ली, 6 नवंबर

मुफ्त अनाज योजना के विस्तार से अंगले 2 साल तक राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कोई बड़ा असर नहीं होगा। वित्त मंत्रालय के शीर्ष पदस्थ सुत्रों ने यह जानकारी दी।

कुछ राज्यों द्वारा धन का दावा करने के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत की जा रही फर्जी मांग को लेकर भी वित्त मंत्रालय चिंतित है। खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने तत्काल सहायता के लिए इस योजना के तहत 10,000 करोड रुपये अतिरिक्त जारी किए हैं।

्रप्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले शनिवार को मुफ्त राशन योजना-प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने की घोषणा की थी. जो दिसंबर 2023 में समाप्त हो रही है।

महामारी के दौरान सरकार ने 5 किलो अतिरिक्त अनाज देने की घोषणा की थी, जिसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नाम दिया गया था। यह सब्सिडी वाले 5 किलो अनाज के अतिरिक्त दिया



ORISSA BENGAL CARRIER LTD.

CIN: L63090CT1994PLC008732 पंजीकृत कार्यालयः जीवन बीमा मार्ग, पंडरी रायपुर (छ.ग.) 492001, कॉर्पोरेट ऑफिसः ए-1, तीसरी मंजिल, सीजी एलीट कॉम्प्लेक्स, मंडी गेट के सामने, पंडरी, रायपुर (छ.ग.) 492001 वेबसाइटः www.obclimited.com, ईमेल : cs@obclimited.com | चूरमाषः +91-771 2281321 / 0771-4054518

30.09.2023 को समाप्त तिमाही और अर्ध वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश

큙.	विवरण	एकल (स्टैंडअलोन)						
<i>7</i> 1.	1444-1	समाप्त तिमाही			समाप्त	समाप्त वर्ष		
		30.09.2023 30.06.2023 30.09.2022 30.09.2023 30.09.2022		30.09.2022	31.03.2023			
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	
1	प्रचालनो से कुल आय	9086.39	7868.24	10320.27	16954.63	19431.66	36851.73	
2	अविध के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक मदों एवं/या असाधारण मदों के पूर्व)	269.59	266.99	433.54	536.58	848.49	500.36	
3	कर से पूर्व अविध के लिए निवल लाभा (हानि) (अपवादात्मक मदों एवं/या असाधारण मदों के पश्चात)	269.59	266.99	433.54	536.58	848.49	500.36	
4	कर के बाद अवधि के लिए निवल लाभ /(हानि)(अपवादात्मक मदों एवं / या असाधारण मदों के पश्चात)	194.69	206.56	324.31	401.25	637.30	366.92	
5	अवधि के लिए कुल परिपूर्ण आय [अवधि के लिए लाभ /(हानि) (करोपरांत) तथा अन्य परिपूर्ण आय (करोपरांत) सम्मिलित)]	220.19	229.15	324.31	449.34	637.30	370.17	
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक 10 रूपये का अंकित मूल्य)			2108	.28			
7	रिज़र्व (पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व को छोड़कर)	6463.09						
8	प्रति शेयर अर्जन ₹10 / - प्रत्येक मूल (₹ में)	1.04	1.09	1.54	2.13	3.02	1.76	
1)	तनुकृत (₹ में)	1.04	1.09	1.54	2.13	3.02	1.76	

टिप्पणी: उपर्युक्त परिणाम सेबी (सुचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों के पास दायर तिमाही और अर्ध वर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का निष्कर्ष है। वित्तीय परिणामों के पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों www.nseindla.com तथा www.bseindla.com पर तथा कंपनी की वेबसाइट www.obclimited.com पर भी उपलब्ध है।

दिनांक : 07.11.2023 स्थान : रायपुर

कृते, उड़ीसा बंगाल कैरियर लिमिटेड एंसडी/- रवि अग्रवाल प्रबंध निदेशक, डिन: 01392652



Regd. Office: D-19-20, Panki, Industrial Area, Kanpur - 208022 Ph.: +91 512 2691113-6; Fax: +91 512 2691117; Email: secretary@kanplas.com;

website: www.kanplas.com

CIN: L25209UP1971PLC003444 EXTRACT OF THE CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

FOR THE QUARTER/HALF YEAR ENDED 30th SEP, 2023

				(₹in Lacs)
		Quarter	Quarter	Half Year
\$L	PARTICULARS	Ended	Ended	Ended
NO.		30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023
		Unaudited	Unaudited	Unaudited
1.	Total Income from Operations (net)	12,243.63	12,735.76	22,468.27
2.	Net Profit from Ordinary Activities before Tax	312.62	(371.66)	601.28
3.	Net Profit from Ordinary Activities after Tax	223.99	(274.18)	431.05
4.	Net Profit for the period after Tax	223.99	(274.18)	431.05
	(after Extraordinay Items)			
5.	Total Comprehensive Income for the period	223.53	(274.48)	429.41
6.	Equity Share Capital	2,147.38	2,147.38	2,147.38
7.	Reserves (Excluding Revaluation Reserves			16,177.66
	as shown in the Balance sheet of previous year)			
8.	Earning per Share (before / after extraordinary			
	items) (of ₹10/-each) (not annualised)-			
	Basic-	1.04	(1.28)	2.01
	Diluted-	1.04	(1.28)	2.01
	Key Standalone Financial Information fo	r the above m	entioned peri	ods
1.	Total Income from operations (net)	12156.49	12805.37	22388.87
2.	Profit Before Tax	315.07	(343.68)	620.76
3.	Profit After Tax	226.44	(246.20)	450.53

Notes:

The above results of the Company were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 06.11.2023 which were audited by the Statutory

The figures of previous period/year have been re-grouped/re-arranged and/or recast wherever found

The above is the extracts of the detailed format of audited quarterly financial results as filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations.2015. The full Quarterly/Year to date Financial Results are available on the Stock Exchanges website at www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the company's website www.kanplas.com.

> For and on behalf of the Board of Directors Sd/-

Place: Kanpur Dated: 06.11.2023

(Manoj Agarwal) Chairman cum Managing Director

आईपीईएफ की बैठक होगी अहम

नई दिल्ली. 6 नवंबर

अमेरिका की पहल पर बने इंडो पैसिफिक इकर्नॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) के तहत भारत सहित 13 अन्य देश स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था पर बातचीत को आगामी मंत्रिस्तरीय बैठक में अंतिम रूप दे सकते हैं। यह बैठक अगले सप्ताह सैन फ्रांसिस्को में होने वाली है।

इसके साथ ही आईपीईएफ के 4 स्तंभों में से 3 पर बातचीत पूरी हो जाएगी। अमेरिका की ओर से की गई आर्थिक पहल के डेढ साल के भीतर यह पूरा हो जाएगा। इस पहल के दूसरे स्तंभ आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन पर समझौते की कानुनी जांच प्रक्रिया पहले ही परी हो चकी है। सरकार से जुड़े अधिकारियों ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन पर समझौते पर हस्ताक्षर करने को लेकर घरेल मंजरी की प्रक्रिया चल रही है।

पहले स्तंभ या ट्रेड पिलर पर भी का लाभ उठाने का मसला हो।'

उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हालांकि इस पर बातचीत परी होने में कछ और वक्त लग सकता है, क्योंकि इस पर वार्ता सबसे थकाऊ है। भारत ने ट्रेड पिलर को कुछ समय के के लिए पर्यवेक्षण के दर्जे में रखा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस स्तंभ में शामिल होने को लेकर भारत का रुख लचीला है और बातचीत पुरी होने के बाद ही अंतिम फैसला होगा।

अमेरिकी वाणिज्य सचिव जिना रायमोंडो ने सोमवार को एक बयान में कहा, 'डेढ साल के भीतर बाइडन प्रशासन ने भारत प्रशांत क्षेत्र के 14 साझेदार देशों के साथ एक ढांचा स्थापित किया है, जिससे दीर्घावधिआर्थिक मसलों का समाधान हो सके और अमेरिका और अन्य साझेदार नए बदलावों के मताबिक प्रतिक्रिया दे सकें और अवसरों का लाभ उठा सकें, चाहे कोविड-19 से आपर्ति श्रंखला में पैदा हुए व्यवधान से निपटने का मसला हो, या निवेश के नए अवसर

दुसरी व्यक्तिगत मंत्रिस्तरीय बैठक भारत के लिए अहम है. क्योंकि अब तक इस साल किसी ्व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हो सका है। राजनीतिक तनाव के कारण कनाडा से बातचीत पटरी से उतर गई है। वहीं ब्रिटेन के साथ बातचीत में कुछ प्रमुख क्षेत्रों में सहमति नहीं बन सकी है। बहपक्षीय आर्थिक सहयोग

व्यवस्था भारत के साथअमेरिका के लिए भी रणनीतिक महत्त्व का है क्योंकि इसे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में चीन के बढते प्रभाव को कम करने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। काउंसिल फॉर

डेवलपमेंट में मानद प्रोफेसर विश्वजीत धर ने कहा, 'अगर आप आपर्ति श्रंखला स्तंभ को देखें तो इसमें श्रम एवं पर्यावरण मानक का बड़ा महत्त्व है। भारत इसके अनुपालन के लिए अभी तैयार नहीं है। मानक को लेकर चिंता है और मांग के मृताबिक मानक पुरा करना

अगले साल बढ़ेगी 12 गीगावॉट ताप बिजली राज्य परंपरागत (कोयला) व

नई दिल्ली, 6 नवंबर

इस साल बिजली की रिकॉर्ड बढ़ी मांग को देखते हुए केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने परंपरागत और अक्षय ऊर्जा क्षमता बढाने के लिए राज्य सरकारों से बातचीत की पहल की है। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा कि मार्च 2024 तक कोयला से होने वाला बिजली उत्पादन 12 गीगावॉट बढ जाएगा। राज्यों के बिजली मंत्रियों की दिल्ली में आयोजित सालाना बैठक के पहले दिन सिंह ने आज कहा, 'अगस्त से हर महीने बिजली की मांग 20 प्रतिशत बढी है। हमने सबी राज्यों व इकाइयों से 100 प्रतिशत

क्षमता से संयंत्र चलाने को कहा है।

हमने कोयला उत्पादक इलाकों में

नए बिजली संयंत्र स्थापित करने के

लिए राज्यों के साथ बातचीत की है. जिससे भविष्य की मांग परी की जा

तैयार की जा सके।' बिजली सचिव पंकज अग्रवाल ने कहा कि 2031-32 तक 70 से 75 गीगावॉट अतिरिक्त कोयला आधारित क्षमता की जरूरत होगी, जिससे कि मौसम के कारण मांग में होने वाले उतार चढाव की भरपाई हो सके। उन्होंने कहा, 'अगले साल तक 500 मेगावॉट पनबिजली उत्पादन की उम्मीद है। कोयला आधारित क्षमता भी ढ़ेगी। भंडारण स्रविधा के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता भी बढेगी। कई राज्यों ने अतिरिक्त बिजली उत्पादन के

संकेत दिए हैं, जो नई व परानी दोनों

अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने

को सहमत हो गए हैं। सिंह ने कहा,

'यह फैसला किया गया है कि केंद्रीय

बिजली प्राधिकरण व राज्य

मिलकर संसाधन पर्याप्ततता

योजना तैयार करेंगे, जिससे भविष्य

की मांग पुरी करने के लिए क्षमता

देश की सबसे बड़ी आरई कंपनी बनी अदाणी ग्रीन

नई दिल्ली, 6 नवंबर

अडाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) भारत की सबसे बडी हरित ऊर्जा कंपनी बन गई है। कंपनी ने बीते सप्ताह 8.4 गीगावॉट की

स्थापित क्षमता हासिल की है। कंपनी के अधिकारियों ने इस अखबार को बताया कि एजीईएल ने राजस्थान में 0.15 गीगावॉट का सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया है। इसकी बदौलत कंपनी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 5 गीगावॉट और हरित ऊर्जा में कुल 8.4 गीगावॉट की क्षमता

हासिल की है। इसकी समकक्षों में


रिन्यु 8.3 गीगावॉट के करीब है। इसके बाद टाटा पॉवर और ग्रीनको एनर्जीज 4 गीगावॉट की क्षमता के . करीब है। सरकारी कंपनी एनटीपीसी की हरित ऊर्जा की क्षमता 3.2 गीगावॉट है।

बहरहाल, एजीईएल ही देश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा का पोर्टफोलियो 5 गीगावॉट का संचालन भी करती है। अधिकारी के अनसार एजीईएल प्रबंधन की योजना इस वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 24) में 2.8 गीगावाट से 3 गीगावॉट की क्षमता स्थापित करने की है। इसका कुल पुंजीगत व्यय इस वित्त वर्ष में 14,000 करोड़ रुपये है।

बीएस सूडोकू 4813

परिणाम संख्या 4812

सके।' सिंह ने कहा कि ज्यादातर तरह की इकाइयों से होगा।'



7	8	4	1	5	3	6	9	2
6	5	1	4	2	9	3	8	7
2	9	3	6	8	7	5	1	4
1	6	5	7	3	8	2	4	9
9	7	8	2	4	6	1	5	3
4	3	2	5	9	1	7	6	8
8	2	7	9	6	5	4	3	1
5	1	9	3	7	4	8	2	6
3	4	6	8	1	2	9	7	5

कैसे खेलें ?

हर रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की संख्या भरें।

पंजाब

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोमवा

को सोना 50 रुपये की गिरावट के साथ 61,750 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। सोने पिछले कारोबारी सत्र में 61,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत 75,200 प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित रही। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमत गिरावट के साथ 1.985 डॉलर प्रति औंस रह गयी जबकि चांदी भी गिरावट के साथ 23.15 डॉलर प्रति औंस रही।

गेहूं दड़ा 2600/2610, गेहूं शरबती 3600 /3700, चावल शरबती सेला 4800/4900, स्टीम 5900/6000, लालमती 5800/ 5900, चावल (सोना) 5600/ 5700, दाल अरहर सवा नं. 15800/ 16200, पटका 16700 /17400, रिजैक्शन 11800 /12000, चना दाल 7450/7550, चना देशी छना 7200/7250, चना चापा छना 7400 /7500, एग्रो प्योर बेसन 2950, मटर देशी 5600 /5700, उडद साबत (काला) 10900/12800, दाल उड़द (काली)

लखनऊ

11000/13200, उड़द धोया 10500/ 12600, मसूर छोटी 6500/6800, मलका 7400/ 7700, किरानाः जीरा 48000/ 59000. लालमिर्च गुंदूर 24000/33000, हल्दी निजाम फली (50 किलो) 68500/ 72500, धनिया एमपी 8200/ 12000, छोटी इलायची (किलो) 1450/ 1550, बड़ी इलायची 1040/1050, कालीमिर्च (किलो) 650/700, सुपारी (किलो) 485/550, सौंफ मोटी 29000 /33000, मंगरैल 17000/18000,

दिल्ली

गेहूं 2600/2620, जौ 1900/1925, चावल मसूरी 2800/2900, चावल मोटा 2800/2900, देशी चना 6600/6625, चना छना 6800/6900, दाल चना 7350/7550, मटर 5600/5700, पिचकी 4300/4400, मटर दाल 5850/5900, अरहर लेमन 12050/12060, दाल अरहर 16400/ 17500. स्पेशल 15600/ 15800.उडद एसक्य 10500/10550. एफएक्यु 9700/9750, राजमा चित्रा 9600/14300, मुंग 8000/8500, मस्र

छोटी 6500/6700, छांटी 7400/7600, सरसों 5350/5450, तिल सफेद 15500/ 15900, सोया (टीन) 1750/ 1800, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन) 1950/2100, सरसों खल 3000 /3100, पामोलिन 1900/1950, वनस्पति घी (युपी एफओआर) 1700/1800, मधसदन देशी घी 7800, वासदेव 7400, परम प्रीमियम 7800 पदम श्री 7800, लीलाधर 7750, अलर्सी 7200/7400, धनियाः लोकल 8200/ 8300, राजस्थान 8900/9100, बढ़िया 9600/12400, हल्दी 13600/14500, जीरा 47000/57000, अजवायन 17500/ 22500, मेथी 8400/ 9000, मखाना 750/950, कालीमिर्च (किलो) 660/720, लालमिर्च (किलो) तेजा 265/328, (334) न. 240/260, कर्नाटक चिकनी 505/515, गोला 13000/15500

उत्तर प्रदेश

(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1035, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1200, फ्लैक 1150, सिंथेटिक फ्लैक 1110, डीएमओ 840, टरपीन लैस बोल्ड 1225

चंदौसी

10000/10200, मोटा 10500/10700, उड़द मोगर 10000/10200, मोटा 11000/ 11500, चौला मोगर 8100/8200, मोठ मोगर 8000/8100, मंग दाल छिलका देशी 9500/ 10000, मलका 7200/7400. अरहर 15200/16300, मटर दाल 5900/ 6000. चना दाल मीडियम 7200/7300. बोल्ड 7400/7500, दलहनः उड़द साबुत देशी 9000/9200, मटर सफेद 5700/5800, मोठ साबुत 6600/6700, काबली चना 13000/ 14000, चना (डिली.) 6450/ 6500, मूंग 8200/8600, राजमा शर्मिली 12500/13000, राजमां चित्रा 11500/ 13500, किरानाः हल्दी निजामाबाद 13200/ 13800, सांगली 13600/14100, हल्दी राजापुरी 19600/21000, लालिमर्च

दाल (जीएसटी अतिरिक्त): मंग मोगर

राजस्थान

18000/ 31000, कालीमिर्च (किलो) 625/725, धनिया 8700/12400, जीरा 53000/62500, अजवायन 20000/ 30000. सौंफ 23000/40000. मेथी 7300/7500. मेथी मशीन क्लीन 7800/

8000, इमली 3900/4200, गोला टिपटूर 10500/13000, चावल डीबी 8200/ 8300, गेहूं (मिल) 2700/2725, मक्की 2240/2250, बाजरा 2240/2250, जौ 1950/1975, ग्वार लूज 5500/5550, ज्वार कैटलफींड 2400/2500, ज्वार बेस्ट क्वालिटी 2900/3000. तेल-तिलहनः सरसों(मिल पहुंच) 5875/5900, सरसों एक्सपेलर निवाई &, कोल्ह कच्ची घानी टोंक 10600. राइसब्रान डिऑयल्ड कंटीन्यअस 1750, डीओसी (टन): सरसों जयपुर 27500, कोटा 27000,अलवर 27000,

जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)140, राइसब्रान (अखाद्य) 138, खल सरसों 3050, डीओसीः राइसब्रान बैच सफेद 1270, लाल, कंटीन्यूअस 1270, सरसों (टन) 27700, सुरजमुखी (टन) 26000, अनाजः गेहं 2700/2750, आटा (50 किलो) 1460, मैदा 1560, चोकर (45 किग्रा) 1100. चोकर (30 किग्रा) 690, मक्की बिहार 2330/2365